



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 221]
No. 221]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई पोतवणिक पुनरीक्षण शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

विषय : मैसर्स युआसा बैटरी (गॉनडॉग) कं. लि., चीन द्वारा प्रार्थित लैंड एसिड बैटरियों के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के नए पोतवणिक पुनरीक्षण की शुरूआत।

सं. 14/30/2002-डीजीएडी.— मैसर्स युआसा बैटरी (गॉनडॉग) कं० लि० चीन ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से लैंड एसिड बैटरियों (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के समस्त निर्यात पर जिस पर सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय-85 के अन्तर्गत आने वाली अधिसूचना सं० 1/2002-सीमाशुल्क दिनांक 2/1/2002 के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था, के विषय में पुनरीक्षण के लिए एक याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं० 67/1/2000-डीजीएडी दिनांक 21.3.2001 द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के विषय में अधिसूचित किया है और अधिसूचना सं० 67/1/2000-डीजीएडी दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 द्वारा अन्तिम जांच परिणामों के विषय में अधिसूचित किया था। केन्द्रीय सरकार ने प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी, अधिसूचना सं० 41/2001-सीमाशुल्क दिनांक 9.4.2001 और अन्तिम जांच परिणामों के संबंध में अधिसूचना सं० 1/2002-सीमाशुल्क दिनांक 2.1.2002 के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

संबंधित निर्यातक

2. मौजूदा जांच मैसर्स युआसा बैटरी (गॉनडॉग) कं० लि० चीन *जिसका इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया है) से भारत में लैंड एसिड बैटरियों के निर्यात के संबंध में है।

नए निर्यातक के संबद्ध में जांच की शुरुआत

3. सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि प्रश्नगत निर्यात देश में किसी ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक जिसने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, जापान और बंगलादेश से लैड एसिड बैटरियों के आयात जिस पर दिनांक 2.1.2002 की अधिसूचना से 1/2002-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया गया है, की पाटनरोधी जांच के पहले मामले की जांच के दौरान संबद्ध वस्तुएं भारत में निर्यात न की हों, के लिए पाटन का अलग मार्जिन निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा जांच की जाए। याचिकाकर्ता ने प्रथम-दृष्टया यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि यह पाटनरोधी शुल्क नियमावली के नियम-22 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और अलग से पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है।

4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क नियमावली के नियम-22 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर मैसर्स युआसा बैटरी (गॉंगडॉंग) कं० लि० द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार अधिसूचना सं० 67/1/2000-डीजीएडी दिनांक 7.12.2001 के तहत प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

5. अधिसूचना सं० 67/1/2000-डीजीएडी दिनांक 7.12.2001 द्वारा अधिसूचित अन्तिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लिए जाने के बावजूद उनकी चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया और बंगलादेश के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित लैड एसिड बैटरियों को आयात के संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार मैसर्स युआसा बैटरी (गॉंगडॉंग) कं० लि० चीन के संबंध में अलग से पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं।

6. प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के नियम 22 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 1/2002-सीमाशुल्क दिनांक 2.1.2002 में यथानिर्दिष्ट आयातों की अवशिष्ट श्रेणी के अनुसार जब तक यह जांच पूरी नहीं होती प्राधिकारी मैसर्स युआसा बैटरी (गॉंगडॉंग) कं० लि० चीन संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क के अस्थाई निर्धारण की सिफारिश करते हैं।

जांच की अवधि

7. मौजूदा पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 सितम्बर, 2002 से 28.2.2003 है।

सूचना देना

8. ज्ञात संबंधित निर्यातकों एवं आयातकों और घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निम्नवत नियम समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकता है।

समय सीमा

9. वर्तमान जांच से संबंधित समग्र सूचना लिखित रूप में ऐसे भेजी जाए जो उपरोक्त पत्र पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जांच की अवधि पूरी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को दर्ज कर सकता है ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

10. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश दिए गए हैं ।

11. सभी हितबद्ध पक्षकार उक्त नियमों के नियम 7(1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय साक्ष्य सुलभ कराएंगे ।

12. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना देने से मना करता है अथवा उचित समय के भीतर आवश्यक सूचना अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

एल. बी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NEW SHIPPER REVIEW INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

SUB. : Initiation of New Shipper Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Lead Acid Batteries requested by M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China.

No. 14/30/2002-DGAD.— M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting for a review of the Anti-Dumping duty recommended by the Designated Authority on all exports of lead acid batteries (hereinafter referred to as subject goods) from China PR in the earlier case of Anti-Dumping investigation where Government has notified the Anti-Dumping duty vide Notification No. 1/2002 – Customs dated 2.1.2002 falling under Chapter-85 of Customs Tariff Act. The Authority had notified the preliminary findings vide Notification No. 67/1/2000-DGAD dated 21st March, 2001 and final findings vide Notification No. 67/1/2000-DGAD dated 7th December, 2001. Anti-Dumping duty were imposed by the Central Government on the preliminary findings vide Notification No. 41/2001-Customs dated 9th April, 2001 and in respect of the final findings vide Notification No. 1/2002-Customs dated 2.1.2002.

EXPORTER INVOLVED:

2. The present investigations relate to exports of Lead Acid Batteries by M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China (hereinafter also referred to as the Petitioner) to India.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW EXPORTER:

3. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made there under require the Authority to review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported to India the subject goods during the period of investigation of the earlier case of Anti-Dumping investigation against import of Lead Acid Batteries from China, PR, Korea, Japan and Bangladesh where Anti-Dumping duty has been notified vide Notification No. 1/2002 – Customs Dated 2.1.2002. The petitioner has furnished prima facie evidence that it satisfies the conditions prescribed under Rule-22 of Anti-Dumping duty Rules, and has requested for determination of separate dumping margin.

4. The Authority having been satisfied with the conditions as prescribed under Rule 22 of Anti-Dumping Rules, decides to review the Anti-Dumping duty imposed by the Central Government in pursuance of the recommendations made by the Authority vide Notification No. 67/1/2000-DGAD dated 7th December, 2001, as requested by M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China.

5. Having decided to review the final findings notified vide Notification No. 67/1/2000-DGAD dated 7th December, 2001 needs to be reviewed with regard to import of Lead Acid Batteries originating in or exported from China PR, Japan, Korea and Bangladesh, the Authority hereby initiates investigations to determine separate dumping margin in respect of M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China in accordance with the Rules Supra.

6. The Authority recommends provisional assessment of levy of Anti-Dumping duties on all exports made by M/s. Yuasa Battery (Guangdong) Co. Ltd., China of subject goods, till this review is completed, in accordance with the residual category of imports as indicated in Customs Notification No. 1/2002- Customs dt. 2.1.2002 as per Rule 22 of the Rules Supra.

PERIOD OF INVESTIGATION:

7. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st September 2002 to 28th February 2003.

SUBMISSION OF INFORMATION:

8. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

9. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address ***not later than thirty days*** from the date of completion of period of investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the Rules Supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

10. In terms of Rule 6(7) of Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

11. All interested parties shall provide a Confidential summary in terms of Rule 7(2), for the Confidential information provided as per Rule 7(1) of the Rules Supra.

12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

269/ 91/02-2

